

- [Hindi News Local Mp Gwalior Morena](#) Fake Milk Was Prepared By Mixing It With Milk

## मुरैना में पकड़ा मिलावटी पाउडर: दूध में मिलाकर तैयार किया जाता था नकली दूध



मुरैना के जौरा कस्बे में मिलावटी पाउडर मॉल्टो डेक्सट्रन भारी मात्रा में पकड़ा गया। टीम ने 25 किलोग्राम पाउडर की 275 बोरियां पकड़ी हैं। यह बोरियां एक मकान में मौजूद दुकान में भरी हुई थीं। टीम के सदस्यों ने जब दुकान मालिक से पूछताछ की तो वह कोई जवाब नहीं दे सका। मॉल्टो डेक्सट्रन पाउडर का उपयोग दूध में मिलावट करने के लिए किया जाता है। इस पाउडर को सप्रेटा दूध में मिलाकर असली दूध बनाया जाता है। देखने में भले ही यह दूध असली जैसा दिखे लेकिन यह नकली व मिलावटी होता है। इसके सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

### मौके पर पकड़ा दुकानदार

टीम को पता लगा कि जौरा कस्बे के सब्जी मण्डी गेट के सामने एक दुकान में भारी मात्रा में मॉल्टो डेक्सट्रन पाउडर भरकर स्टोर किया गया है। इस पर टीम ने छापा मारा। जैसे ही टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे मकान मालिक मुरारीलाल प्रजापति बाहर निकलकर आया। उसने पूछा कि आप लोग कौन हैं। टीम के सदस्यों ने जब अपना परिचय दिया तो उसने बताया कि उसने यह दुकान अजय गर्ग नामक एक व्यापारी को किराए पर दी है। उसके बाद उससे फोन करके अजय गर्ग को मौके पर बुलाया गया। अजय गर्ग ने जब दुकान खोली तो टीम के सदस्यों ने देखा कि उसमें मॉल्टो डेक्सट्रन पाउडर की बोरियां भरी हुई हैं। गिनने के बाद पता लगा कि 275 बोरियां हैं। एक बोरी का वजन 25 किलोग्राम है।

### जवाब नहीं दे सका दुकानदार

जब टीम के सदस्यों ने दुकानदार अजय गर्ग से पूछा कि वह इस पाउडर को किसको बेचता है तो वह कोई जवाब नहीं दे सका तथा मुंह लटका कर खड़ा हो गया। इसके बाद टीम के सदस्यों ने बोरियां खुलवाकर पाउडर के सेम्पल लिए और उन्हें जांच के लिए भेजा।

### थाने में दर्ज कराया मामला

जांच के बाद टीम के सदस्य मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र जैन व अन्य जौरा थाने पहुंचे तथा दुकानदार अजय गर्ग के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/mp/gwalior/morena/news/fake-milk-was-prepared-by-mixing-it-with-milk-129432840.html>